

STEPHENS INTERNATIONAL PUBLIC SCHOOL



SESSION: 2024-25

SUBJECT ENRICHMENT ACTIVITIES

CLASS - 4






Summer vacation is the time to learn and enjoy. So, spend these holidays creating, nurturing and stimulating environment filled with fun, frolic and learning. I wish you all the best for this Summer Break.



INSTRUCTIONS

Check the instructions before attempting the holidays' homework.

- Homework is to be submitted on the scheduled dates after the school re-opens.
- All the work will be accountable for Internal Assessment.
- Parents are urged to assist their children in their work.
- Neatness and clarity will be appreciated.
- You are going to your holidays. It's a sincere request to all to complete the holiday homework on time.
- Engage yourself whole heartedly as you will learn a lot through it.
- Do a lot of reading – can be newspapers, magazines, books etc.
- Watch English news daily in order to equip yourself with the information and facts to be used as content in the writing skills.





ENGLISH



LEARNING/WRITING

Read the given passage and answer the following questions.

The smile is the best tonic for our mind and body. It takes thirteen muscles to smile, but forty-three to be angry. So, it is easier to smile but difficult to be angry. To be cheerful, we have to create positive thoughts. On the other hand, if we constantly think about negative things, we feel unhappy. So, the best way to avoid a negative idea is to replace it with a positive one. When we are relaxed in bed, we should practice putting some cheerful thoughts.

A. What is the best tonic for our mind and body?

B. What should we do to be cheerful?

C. What is the best way to replace a negative idea?

D. What should we practice when we are relaxed in bed?

E. What happens when we constantly think about negative thought?





ACTIVITY

† Create a **MEMORY BOOK** of the best moments of your summer break. For each memory write few lines and add pictures. Decorate your Memory book with a colourful cover.

† Make 7 **COMPOUND WORDS** by joining two suitable words. You can draw or paste them. One has been done for you.



+



=



Large empty rectangular box for writing and drawing.




SOCIAL STUDIES

READING/WRITING

Read the chapters thoroughly that are included in Mid-term and highlight the important points on the book.

ACTIVITY

- Paste pictures of different means of mass communication and personal communication on scrap book. Write atleast five advantages and disadvantages of Internet.
- Mark northern and western states of India in the political map of India and paste it on scrap book.





Math



Activity 1: Recipe Math

Find a simple recipe (like cookies or a smoothie) and write it down.



Double the ingredients of the recipe and write down the new measurements.



Half the ingredients of the recipe and write down the new measurements.

Activity 2:


Make a Tangram using different 2D shapes and TLM of Clock with the help of link given below



<https://www.instagram.com/reel/C7J4pJuvqJY/?igsh=MTIhd3F5aGhjbDgweA==>



Note: Do both the activities on a scrap book.





हिन्दी



प्र:1. निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए।
 नार्वे की राजधानी 'ओस्लो' है— कल्पना का एक शहर। यह एक अनोखा देश है। यहाँ सूरज दिन में नहीं, रात में भी चमकता है। यहाँ सभी मकान खूबसूरत होते हैं। यहाँ हर घर के आस-पास बगीचा बनाने की सुंदर परंपरा है। इसमें हरी-हरी मुलायम दूब तथा रंग-बिरंगे फूल होते हैं। कहीं चेरी, आड़ू तो कहीं सेब के वृक्ष। सब्जियों में पालक, गोभी और सलाद के चौड़े-चौड़े पत्ते। सब कुछ सुरुचिपूर्ण दृष्टिगोचर होता है। यहाँ रहने वाले प्रवासी भारतीयों की संख्या सोलह-सत्रह सौ के लगभग होगी। पश्चिमी दुनिया में भारतीयों का जितना सम्मान नार्वे में है, उतना शायद ही किसी अन्य देश में होगा।

(क) 'कल्पना का शहर' किसे कहा गया है?

उत्तर _____

(ख) ओस्लो में कैसे मकान होते हैं?

उत्तर _____

(ग) ओस्लो में क्या बनाने की सुंदर परंपरा है?

उत्तर _____

(घ) यहाँ रहने वाले भारतीयों की कितनी संख्या है?


उत्तर _____

(ङ) उपर्युक्त गद्यांश में से दो संज्ञा शब्द ढूँढ कर लिखें।

उत्तर _____


प्र:2. दिए गए चित्र को ध्यान से देखकर उसका वर्णन पाँच पंक्तियों में कीजिए।







SUMMER



प्र:3. अब तक जो भारतीय एवरेस्ट की चोटी पर पहुँच चुके हैं, उनकी एक सूची इस तरह से बनाओ।

1. पर्वतारोही का नाम
2. चोटी का नाम
3. प्रदेश का नाम
4. तिथि और वर्ष

(on colourful A4 sheet)

प्र:4. दिए गए लिंक की सहायता से A4 शीट पर गतिविधि बनाएँ।



https://youtu.be/N-L1Wrpl_tk?si=BTiIJPgTW7Elr4zE



SUMMER



SCIENCE



LET'S BE CREATIVE

"Creativity doesn't wait for that perfect moment."

* Make a bird's nest using twigs, grass etc.

(Refer p.no.94 of your book.)

LET'S BE HEALTHY


'The greatest wealth is health.'

- Make any fruit or vegetable salad and write the steps of preparation of the same in your scrap book.
- Also click photographs during preparing it and paste in the scrap book.

LET'S REVISE

"Revision is the second step towards perfection"

- Revise all the work done in the class.
- Also read the chapters of Mid-term and write at least 20-25 new words of each chapter in your scrap book.





ACTIVITY

Make a model of "Storage Devices" using cardboard, coloured sheet and other required material.

- Roll No. 1 to 20 will make the model of hard disk.



- Roll No. 21 to 40 will make the model of pen drive.



Revise chapter 2 (Memory and Storage Devices)





The 3 R's of Summer....
READ, RELAX & RENEW



See you all on July 17, 2024.

HAVE A GREAT SUMMER VACATION!

